


Cloze Passage Worksheet

स्वच्छता की आदतें



निर्देश: खाली स्थानों को सही शब्दों से भरें।

1. रोज _____ (स्नान/सोना) करना स्वस्थ रहने का हिस्सा है।
2. हमें खाने के बाद _____ (दाँत/पैर) साफ करना चाहिए।
3. अपने _____ (कपड़े/खिलौने) रोज साफ रखने चाहिए।
4. घर में _____ (कचरा/पौधे) नहीं फैलाना चाहिए।
5. _____ (साबुन/चॉकलेट) से हाथ धोना बीमारियों से बचाता है।